



Achamanam

क्या ?

पानी की बूंदों को तीन बार मंत्र के साथ पीने को आचमन कहते हैं। ये धार्मिक कर्तव्यों और संस्कारों को निभाने के लिए आपको शुद्ध और तैयार करता है। मनुस्मृति 2.61 कहती है : “शौच ईपसु : सर्वदा आचामेद एकांते प्राग-उद्भग्म मुखः” जो पवित्रता चाहता है वो हमेशा उत्तर या पूर्व सामना करते हुये एकांत में आचमन करेगा।

कौन ?

अगर आपका “उपनयन” हो चुका है, यज्ञोपवीत प्राप्त हुआ है, तो आप “आचमन” करना शुरू कर सकते हैं।

क्यों ?

आचमन अपना मुँह कुल्ला करने के रूप में आंतरिक शुद्धता देती है।

कब ?

श्रुतियों और स्मृतियों के अनुसार आचमननिम्नलिखित समयों में करना चाहिए :

अपने दाँत साफ करने के बाद एक बार, पेशाब के बाद दो बार, और आंत(मल) सफाई के बाद तीन बार आचमन करना चाहिए। एक बार स्नान के पहले और दो बार स्नान के बाद। पानी पीने और कठिन पदार्थ खाने के लिए भी यही शासन है। भोजन करने के पहले और भोजन के बाद दो बार जप, हवन, होम /त्रिकाल संध्या, अर्चना, दान देने और दान प्राप्त करने के पहले दो बार और बाद में एक बार।

कैसे ?


आपके विशेष आचमन प्रक्रिया के लिए “मेरा आचमन” खंड को इस्तेमाल कीजिये॥

उसके पेहले “माइ प्रोफाइल” को सही मात्र से भर लीजिये। आचमन हमेशा ब्रह्मतीर्थ भाग से किया जाता है

1. हात में पानी रखते हुये उच्चरण करें: “अच्युताय नमः” और अपनी दाईं हथेली के आधार भाग के माध्यम से पानी पी लें। (ब्रह्मतीर्थ)
2. फिर से कहें : “अनंताय नमः” और धूंट पानी फिर से पी लें।

3. फिर से कहे : “गोविंदाय नमः” और धूंट पानी फिर से पी लें।

इस के बाद अपने दाहिने अंगूठे से अपना मुँह पोंछ लें और पानी से अंगूठे धो लें।



अपवाद ?

1 प्रसाद, फल, शहद, तुलसी जैसे पत्र, गन्ने, इलैची, केसर की तरह खुशबूदार जड़ीबूटियों और तिल स्वीकार करने के पहले या बादमे आचमन नहीं किया जाता है।

2. अगर आपको कभी पानी नहीं मिला या आप निर्धारित तरीके से आचमन नहीं कर पाएंगे, तो आप “श्रोत्राचमन” कर सकते हैं। पहले प्रणव मंत्र “ॐ” कहें, फिर दायें हाथ से अपने नाक की नोक को छू लें, फिर अपने दायें कान को छू लें। यह “श्रोतराचमन” होगा।

धर्म की आवाज़

क्या आप बहुत बीसी हैं ? योगासन के लिए समय नहीं है क्या ? आचमनं करके देखिये । ये (कुक्कुटासना) जो है, ये जोड़ों और पीठ को मजबूत करता है । यह पेट की दीवारों को भी मजबूत करता है और पाचन में मदद करता है । हालांकि इस मुद्रा में 'प्रभु' के नाम' लेते हुए पानी स्वीकार करने से आंतरिक पवित्रता मिलती है ।

